

इस समय यह न करें:
शहर के पानी से लॉन, बगीचे, फूल,
पेड़ और झाड़ियों को सींचना



इस समय यह न करें:
आउटडोर पूल या हॉट टब भरना




इस समय यह न करें:

अपनी कार को ड्राइववे या सड़क पर धोना



इस समय यह न करें:

बाहरी सतहों को धोना, जिनमें शामिल हैं:



- खिड़कियाँ
- बाहरी भवन सतहें
- फुटपाथ, ड्राइववे या पैदल मार्ग

इस समय यह न करें:

अपने आउटडोर प्रोपेन या लकड़ी के फायरपिट्स का उपयोग करना




**इस समय आपके धैर्य
और सहयोग के लिए
कैलगरी को धन्यवाद**




क्या आप निम्नलिखित तरीकों से अपने घर के अंदर पानी के उपयोग को कम करने में मदद कर सकते हैं:

डिशवॉशर और वॉशिंग मशीन का उपयोग केवल आवश्यक होने पर और पूर्ण लोड के साथ करना



क्या आप निम्नलिखित तरीकों से अपने घर के अंदर पानी के उपयोग को कम करने में मदद कर सकते हैं:

स्नान को दो से तीन मिनट या उससे कम तक सीमित रखें तथा कम पानी के साथ टब में नहाएं



2-3 मिनट

क्या आप निम्नलिखित तरीकों से अपने घर के अंदर पानी के उपयोग को कम करने में मदद कर सकते हैं:

सब्जियों और फलों को आंशिक रूप से भरे सिंक या बर्तन में धोना और फिर उन्हें जल्दी से धोना



क्या आप निम्नलिखित तरीकों से अपने घर के अंदर पानी के उपयोग को कम करने में मदद कर सकते हैं:

अपनी प्लेट से भोजन को धोने की बजाय इसको साफ़ करना



क्या आप निम्नलिखित तरीकों से अपने घर के अंदर पानी के उपयोग को कम करने में मदद कर सकते हैं:

दाँत साफ करते या दाढ़ी बनाते समय नल बंद कर दें

